



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

No. 37]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 1999/माघ 27, 1920

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 1999/MAGHA 27, 1920

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1999

सं. 45-प्रेज/99.—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करते हैं :—

1. स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण (मरणोपरान्त)
2. आचार्य अमर्त्य सेन
3. स्वर्गीय श्री गोपीनाथ बरदलै (मरणोपरान्त)
4. पण्डित रवि शंकर

गोपालकृष्ण गांधी, राष्ट्रपति का सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1999

No. 45-Pres/99.—The President is pleased to confer the award of Bharat Ratna on the following persons :—

1. Late Shri Jayaprakash Narayan (Posthumous)
2. Professor Amartya Sen
3. Late Shri Gopinath Bordoloi (Posthumous)
4. Pandit Ravi Shankar

GOPALKRISHNA GANDHI, Secy. to the President

